

## सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021

थाना खेसरहा पुलिस ने 02 नफर वांछित अभियुक्त को सम्बन्धित मु0अ0सं0 89/21 धारा 308,323,504,269,270 भादवि, 3 महामारी अधिनियम व 51b आपदा प्रबन्धन अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री अरुण चन्द, क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 08.07.2021 को 02 नफर वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 89/21 धारा 308,323,504,269,270 भादवि, 3 महामारी अधिनियम व 51b आपदा प्रबन्धन अधिनियम को बेलौहा बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. झल्लर पुत्र बहोरी प्रसाद साकिन भूपतजोत थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. सुनील पुत्र झल्लर साकिन भूपतजोत थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 रणजय सिंह
2. का0 अजीत यादव
3. रि0का0 अनिकेत सिंह

## सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 2 नफर अभियुक्त को एक बोरी डाई, 02 बोरी यूरिया खाद ,01 अदद पुरानी इस्तेमाली साईकिल व 1 अदद मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर (यूपी 56 ई 6213) के साथ धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर मय माल कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक लोटन श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2021 को तस्करी रोकथाम व क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोटन पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त, 1. दुर्गेश पुत्र राम धनुष सा. पड़रहिया थाना मधुबेनिया जिला रूपनदेही राष्ट्र नेपाल 2. सुक्खू पुत्र राजाराम सा. पड़रहिया थाना मधुबेनिया जिला रूपनदेही राष्ट्र नेपाल को एक बोरी डाई 02 बोरी यूरिया खाद, 01

अदद पुरानी इस्तेमाली साइकिल व 1 अदद मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर (यूपी 56 ई 6213) के साथ धारा 11 कस्टम अधिनियम में बहद ग्राम कन्हौली थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को समय 09.30 बजे गिरफ्तार कर मय माल कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

1. दुर्गेश पुत्र राम धनुष सा. पड़रहिया थाना मधुबेनिया जिला रूपनदेही राष्ट्र नेपाल
2. सुखू पुत्र राजाराम सा. पड़रहिया थाना मधुबेनिया जिला रूपनदेही राष्ट्र नेपाल

### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. उ.नि. राम अशोक यादव प्रभारी चौकी हरिवंशपुर थाना लोटन।
02. हेड हरेन्द्र शरण शुक्ला थाना लोटन ।
03. का. अनिल कुमार यादव थाना लोटन ।

## **सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021**

### **38 शीशी नाजायज़ देशी शराब के साथ 01 व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री सुरेश चन्द्र रावत के निर्देश, श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह, के कुशल नेतृत्व मे पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 09.07.2021 को समय 13.30 बजे एक अभियुक्त को 38 शीशी देशी नाजायज़ शराब के साथ ग्राम पिपरहवा स्थित गनवरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया इस संबंध मे थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी का विवरण –**

- 1- अनिल पुत्र केशरी प्रसाद सा.बर्डपुर01 टोला बिहरा थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ।

### **वरामदगी का विवरण -**

38 शीशी देशी शराब नाजायज़

### **टीम का विवरण –**

- 1-उ.नि.किशोरीलाल चौधरी थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ।
- 2- नि. आब. मुकेय कुमार शर्मा थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ।
- 3-नि. आब. अजय कुमार थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ।
- 4--का. शिबबन लाल थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ।

## **सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021**

दिनांक 10.07.2021 को ब्लॉक प्रमुख पद के निर्वाचन हेतु जनपद के कुल 10 विकास खण्डों में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी | जिसके दृष्टिगत रखते हुए समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर सुदृढ़ बैरिकेडिंग कराई गई है | मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में केवल उम्मीदवार, मतदाताओं और अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पर आने जाने की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवेश नहीं करेगा |

मतदान केंद्र पर मोबाइल अस्त्र-शस्त्र, पेन अथवा कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना अनुमन्य नहीं होगा | मतदान केंद्र के प्रवेश द्वारा पर ही चेकिंग/ फ्रिस्किंग, सघन तलाशी ली जाएगी | मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सी सी टी वी कैमरे लगवाए जा रहे हैं | भारी वाहनों का आवागमन इटवा कस्बे में नहीं होगा | बल्कि यह वाहन देबरुआ से डायवर्ट कर शोहरतगढ़-सनई चौराहा से होकर गंतव्य को जाएंगे | इसी प्रकार डुमरियागंज से इटवा की तरफ जाने वाले भारी वाहन डुमरियागंज से डायवर्ट होकर मिठवल बांसी होते हुए गंतव्य की तरफ को जाएंगे |

मतदान व मतगणना को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु इटवा ब्लॉक पर एक क्षेत्राधिकारी, 07 थाना प्रभारी, 25 उप-निरीक्षक, 200 आरक्षी/मुख्य आरक्षी व 15 महिला आरक्षी लगाई गई हैं | सभी विकास खण्डों पर दो-दो थाना प्रभारी/निरीक्षक 10 उप-निरीक्षक, 45आरक्षी/मुख्य आरक्षी व 5 महिला आरक्षी लगाई गई हैं | सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में छः क्षेत्राधिकारी, 26 थाना प्रभारी, 108 उप निरीक्षक, 575 आरक्षी/मुख्य आरक्षी व 60 महिला आरक्षी ड्यूटी में लगाई गई हैं | सभी तहसील मुख्यालयों पर कर क्यूआरटी0 लगाई गयी हैं | सभी विकास खण्डों में पर्याप्त संख्या में पीएसी लगाई गई है | यू0पी0 112 के वाहनों को भी मतदान केंद्रों के आसपास नियोजित किया गया है | साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू को दृष्टिगत रखते हुए बिना कारण के आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा | कोविड-19 प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक दशा में अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा | सम्पूर्ण जनपद में निर्वाचन को शान्तिपूर्ण - सकुशल संपन्न कराया जायेगा |

## **सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-09-07-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 843 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 181 वाहनों का चालान कर ₹ 1,78,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया |

## सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021

थाना को. लोटन पुलिस द्वारा 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी अन्तराष्ट्रीय बाजार मे कीमत लगभग 1.2 करोड़ रूपये ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेशचन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सदर के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 09.07.2021 को श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में थाना लोटन पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चेकिंग व देखभाल क्षेत्र मे थे कि सुरेन्द्र पुत्र नाथु सा. करमा थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद कर समय करीब 12.20 पर गिरफ्तार कर थाना स्थानिय पर मु.अ.सं. 74/2021 धारा 8/21 NDPS ACT. पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

**अभियुक्त से बरामदगी-** 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ 01 व्यक्ति गिरफ्तार ( अन्तराष्ट्रीय बाजार मे कीमत लगभग 1.2 करोड़) ।

**गिरफ्तारी समय व स्थान –** समय करीब 12.20 बजे बहद ग्राम महदेइया मोड़ गेट ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. सुरेन्द्र पुत्र नाथु सा. करमा थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण**

1.उ.नि. श्री इशान्शू श्रीवास्तव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

2. हे. का. राजेन्द्र यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

3.का. मनिष गौड़ थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

## सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 09-07-2021

थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्ता को धारा 60(63) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2021 को धारा 60(63) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत एक अभियुक्ता को मु0अ0सं0 144/21 धारा 60(63) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. नाइमा खातून पत्नी बाउर साकिन तुलसीपुर कचहरी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर बरामदगी का विवरण-150 शीशी नेपाली देशी शराब

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 श्री दयानन्द यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
02. का0 मुलायम कुमार थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
03. SSB टीम



#siddharthnagpol “चोरी करके भाग रहे चोरो के विरुद्ध उसका पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही”। @Uppolice @AdgGkr @digbasti @AnilRai\_IPS @dmsid1 @SpAdditional @SureshAddlSpSdr #UPPolice

#siddharthnagpol यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम मे 471 वाहनों का ई-चालान कर ₹ 4,93,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया। @Uppolice @AdgGkr @digbasti @AnilRai\_IPS @dmsid1 @SpAdditional @SureshAddlSpSdr #UPPolice

[#siddharthnagpol](#) [#SP\\_SDR](#) के निर्देशानुसार थाना खेसरहा पुलिस बल द्वारा थानाक्षेत्र पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो को चेक किया गया [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@AnilRai\\_IPS](#) [@dmsid1](#)  
[@SpAdditional](#) [@SureshAddlSpSdr](#) [#UPPolice](#)

आज दिनांक 30-06-2021 को जनपद सिद्धार्थनगर में प्रकाशित [#समाचार पत्र](#) में [#siddharthnagpol](#) से सम्बन्धित समाचार [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@AnilRai\\_IPS](#) [@dmsid1](#) [@SpAdditional](#)  
[@SureshAddlSpSdr](#) [#UPPolice](#)

